

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 21, शक 1940

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2018

सूचना

क्रमांक एफ 11-14/2017/सात-1. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कबीरधाम	पंडरिया	कुण्डा	रा.नि.मण्डल पंडरिया के पटवारी हल्का नं. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एवं 72 के कुल 49 ग्राम, रा.नि.मण्डल मोहगांव के पटवारी हल्का नं. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एवं 59 के कुल 39 ग्राम, अतः 26 पटवारी हल्के के कुल 88 ग्राम नवीन तहसील “कुण्डा” में शामिल होंगे.	उत्तर - तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम. दक्षिण - तहसील बेमेतरा, जिला बेमेतरा. पूर्व - तहसील मुंगेली, जिला मुंगेली. पश्चिम - तहसील बोड़ला/कवर्धा, जिला कबीरधाम.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 12th September 2018

NOTICE

No. F 11-14/2018/Seven-1. — In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tehsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capitol Complex, Atal Nagar, Raipur, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tehsil	Create New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabirdham	Pandaria	Kundaa	Total 49 villages of Patwari Halka No. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 and 72 of Pandaria R.I. Circle and, Total 39 villages of Patwari Halka No. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59 of Mohgaon R.I. Circle, Thus, total 88 villages of 26 Patwari Halkas shall be included in new Tehsil "Kundaa".	North - Tehsil Pandaria, District Kabirdham. South - Tehsil Bemetara, District Bemetara. East - Tehsil Mungeli, District Mungeli. West - Tehsil Bodla/ Kawardha, District Kabirdham.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER KERKETTA, Deputy Secretary.